



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1939 (श0)
(सं0 पटना 161) पटना, मंगलवार, 27 फरवरी 2018

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना
21 फरवरी 2018

संचिका संख्या—कारा/स्था0(अरा0)—01—04/2016—1125—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—1220/लो0से0आ0 दिनांक 23.08.2017 द्वारा उपाधीक्षक से काराधीक्षक के बेसिक ग्रेड (वेतनमान—9300—34800, पे बैंड—2, ग्रेड पे 4800) में प्रोन्नति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री धर्मेन्द्र कुमार, उपाधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी को काराधीक्षक के बेसिक ग्रेड के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. नव प्रोन्नत अधीक्षक को प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ पदस्थापन के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या—29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्रशासन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 161-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>